



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 1982/माघ 22, 1903  
No. 42] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 1982/MAGHA 22, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1982

सां०कां०नि० 57 (अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1953 का और संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारूप खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) जिसे इसमें आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० सां०कां०नि० 1191 तारीख 3 नवम्बर, 1980 के साथ भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) तारीख 15 नवम्बर, 1980 पृष्ठ 2393-2395 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी जनता को उपलब्ध करा देने की तारीख से 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ;

और उक्त राजपत्र 15 नवम्बर 1980 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था। और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय खाद्य मानक

समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1953 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे सिवाय नियम 2 और 3 के जो प्रकाशन की तारीख के छह मास के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1953 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) उपनियम (फ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ब) सुखाए गए ग्लूकोज सिरप के प्रत्येक पैकेज पर जिसमें सल्फर-डाइआक्साइड 40 भाग प्रति दस लाख से अधिक हो” निम्नलिखित लेबल लगा होगा, अर्थात् :—

सुखाया हुआ ग्लूकोज सिरप  
केवल शर्करा मिष्ठान उपयोग के लिए

3. उक्त नियमों के नियम 49 के उपनियम (12) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(13) सुखाया गया ग्लूकोज सिरप जिसमें सल्फर-डाइआक्साइड 40 भाग प्रति दस लाख से अधिक हो, केवल ऐसे पैकेज में

विक्रय किया जाएगा जिस पर नियम 42 के उपनियम (ब) में विनिर्दिष्ट लेबल लगा हो।”

4. उक्त नियमों के परिशिष्ट “ख” में—

(i) मव क 07-04 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्—  
“क 07-04” ग्राइस लोली या खाद्य बर्फ से जमाया गया ऐसा बर्फ उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें भार में 0.5 प्रतिशत से अधिक अनुज्ञात सुशुचिकारक, चीनी, सिरप, फल, रस, कोको, सिट्रिक अम्ल स्थायीकारक या पायसीकारक हो सकते हैं। इसमें कोई कृत्रिम मीठाकारक नहीं होगा।

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित मद क 07-04 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“मव क 07-04-01—ग्राइसकैडी से ऐसा जमाया हुआ बर्फ उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें 0-5 प्रतिशत से अधिक अनुज्ञात सुशुचिकारक, चीनी, सिरप, फल, फलरस, बूढ़ फल, कोको, सिट्रिक अम्ल स्थायीकारक या पायसीकारक हो सकते हैं। इसमें चीनी, भार के अनुसार 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इसमें कोई कृत्रिम मीठाकारक नहीं होगा।”

(iii) मव क 07-05 और क 07-08 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“यदि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग निर्मलीकरण के प्रयोजन के लिए किया जाता है तो यह खाद्य श्रेणी का होगा।”

(iv) मद क 07-10 के पश्चात् निम्नलिखित नई मद अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

क 07-11—सुखाया हुआ ग्लूकोज सिरप से संकेद से मखनिया संकेद रंग वाली मोटे या बारीक चूर्ण के रूप में ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जो स्वाद में मीठी सुवास में समिश्र और बोझी भारिताप्राही हो वह किण्वन फसूवो पड़ने के लक्षणों गंवगी या किसी अन्य बाहरी पदार्थ या अतिरिक्त मीठा करने वाले या सुशुचि कर्मक से रहित होगी। उसमें कोई अतिरिक्त प्राकृतिक या कोलतार खाद्य रंग भी नहीं होगा। वह निम्नलिखित मानकों के अनुकूल होगी :—

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| (i) कुल ठोस तत्व        | भार में 93-0 प्रतिशत से अन्यून |
| (ii) अपचायी शर्करा तत्व | भार में 20-0 प्रतिशत से अन्यून |
| (iii) सल्फेटेड अम्ल     | भार में 1-0 प्रतिशत से अधिक    |
| (iv) सल्फर डाइऑक्साइड   | 40 भाग प्रति दस लाख से अधिक    |

“यदि उत्पादक ऐसे मिष्ठानों (कन्फेक्शनरी) के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित है जिसे नियम 4 (ब) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल के अधीन विक्रय किया जाना है तो सल्फर डाइऑक्साइड 150 भाग प्रति दस लाख से अधिक होगा।”

(v) मद क 08-01 में उपपैरा (5) के खंड (i) में “और यह भार में 3-0 प्रतिशत से अन्यून होगी” शब्दों और प्रकों के स्थान पर “और यह भारत में 3-0 प्रतिशत से अन्यून और 7-0 प्रतिशत से अधिक होगी” शब्द और प्रंक रखे जाएंगे।

(vi) मद क 14 और क 14.01 में दोनों मवों के खंड (क) में “50-0 से 8-0 प्रतिशत” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

“5.0 से 8.0 प्रतिशत शुष्क भार के आधार पर।”

(vii) मद क 14 के खंड (ग) में “1-0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—  
“शुष्क भार के आधार पर 1-0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी”

(viii) मव क 14-01 के खंड (ग) में “1.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“शुष्क भार के आधार पर 1.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।”

(ix) मव क 14 और 14.01 दोनों मवों के खंड (ड) में “के 2 ओ के रूप में अभिव्यक्त 1.0 प्रतिशत से कम और 2.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“के 2 ओ के रूप में अभिव्यक्त शुष्क भार के आधार पर 1.0 प्रतिशत से कम और 2.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।”

[फा० सं० पी-15013/7/79 पी० एच० (एफ० एंड एन) पीएफए]

प्रार० के० सिंघल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 11th February, 1982

**G.S.R. 57(E).**—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) hereinafter referred as said Act with the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 1191, dated 3rd November, 1980 at pages 2393-2395 in the Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (i) dated the 15th November, 1980 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 90 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on, 15th November, 1980;

And whereas the objections and suggestions received from public on the draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

### RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Second Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette, except rules 2 and 3 which shall come into force after six months from the date of publication.

2. In rule 42 of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred as the said rules), after sub-rule (V), the following shall be inserted, namely :—

“(W) Every package of the Dried Glucose Syrup containing sulphur dioxide exceeding 40 ppm.” shall bear the following label, namely :—

**DRIED GLUCOSE SYRUP  
FOR USE IN SUGAR CONFECTIONERY ONLY**

3. In rule 49 of the said rules, after sub-rule (12), the following shall be inserted, namely :—

“(13) Dried Glucose Syrup containing sulphur dioxide exceeding 40 ppm, shall be sold only in a package which shall bear the label as specified in sub-rule (W) of rule 42.”

## 4. In appendix B of the said rules,—

- (i) for item A, 07.04, the following shall be substituted, namely :—

"A. 07.04 "ICE LOLLIES OR EDIBLE ICES" means the frozen ice produce which may contain the permitted flavours, sugar, syrup, fruit, fruit juices, cocoa, citric acid, stabilizers or emulsifiers not exceeding 0.5 per cent by weight. It shall not contain an artificial sweetner."

- (ii) After item A, 07.04, so substituted the following items shall be inserted, namely :—

"A. 07.04—ICE CANDY means the frozen ice produce which may contain permitted flavour, fruit, juices, nuts, cocoa, citric acid, stabilizers or emulsifiers not exceeding 0.5 per cent. It shall contain sugar not less than 10 per cent by weight. It shall not contain any artificial sweetner."

- (iii) in item A. 07.5 and A. 07.08, after the existing entries, the following shall be added in the end, namely :—

"Sodium bicarbonate, if used, for clarification purposes, shall be of Food Grade Quality."

- (iv) after item A. 07.10, the following new item shall be inserted, namely :—

A. 07.11 DRIED GLUCOSE SYRUP means the material in the form of course or fine white to creamish white powder, sweet to taste, bland in flavour and somewhat hygroscopic. It shall be free from fermentation, evidence of mould growth, dirt or other extraneous matter, or added sweetening or flavouring agent.

It shall also not contain any added natural or coal-tar food colour. It shall conform to the following standards :—

- (a) Total solid content :

Not less than 93.0 per cent by wt.

- (b) Reducing sugar content :

Not less than 20.0 per cent by wt.

- (c) Sulphated ash :

Not more than 1.0 per cent by wt.

- (d) Sulphur dioxide :

Not more than 40 ppm "Sulphurdioxide may be present in an amount not exceeding 150 ppm if the product is intended for manufacture of confectionery to be sold under a label as specified under rule 42(W).";

- (v) in item A. 08.01, in sub-paragraph (5) in clause (i) for the words and figures and "shall be not less than 3.0 per cent by weight", the words and figures "and shall be not less than 3.0 per cent and not more than 7.0 per cent by weight" shall be substituted ;

- (vi) in item A. 14, and A. 14.01, in clause (a) of both items for the entry "50.0 to 8.0 per cent", the following shall be substituted, namely :—

"5.0 to 8.0 per cent by weight on dry basis."

- (vii) in item A. 14 in clause (c), for the entry "Not more than 1.0 per cent" the following entry shall be substituted, namely :—

"Not more than 1.0 per cent by weight on dry basis";

- (viii) in item A. 14.01, in clause (c), for the entry "Not more than 1.2 per cent" the following entry shall be substituted, namely :—

"Not more than 1.2 per cent by weight on dry basis";

- (ix) in items A. 14 and 14.01 in clause (e) of both items, for the entry "Not less than 1.0 per cent and not more than 2.2 per cent expressed as
- $K_2O$
- ", the following shall be substituted, namely :—

"Not less than 1.0 per cent and not more than 2.2 per cent expressed as  $K_2O$  on dry basis".

[F. No. P-15013/7/79-PH(F&N)(PFA)]

R. K. SINGHAL, Jt. Secy.

